

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 7]

दिल्ली, मई 25—मई 31, 2018, बृहस्पतिवार/ज्येष्ठ 4—ज्येष्ठ 10, 1940

No. 7]

DELHI, MAY 25—MAY 31, 2018, THURSDAY/ JYAISTHA 4— JYAISTHA 10, 1940

भाग—II-II

PART-II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं

Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 222/2015

कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

तवाक्कल वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

सूर्याश अलॉयज एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड

...प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 तथा 434 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तिथि 17.04.2015 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को समाप्ति (वाइंडिंग अप) हेतु एक याचिका तवाक्कल वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विलेज अघाड़, तालुका शाहपुर, ठाणे - 421301 जो की प्रतिवादी कंपनी का लेनदार है, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 21.09.2017 सी. पी. संख्या 222/2015 में शासकीय समापक को कंपनी के अंतरिम परिसमापक नियुक्त किया है और याचिका का विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में सुनवाई की अगली तारीख 18.07.2018 के लिए तय की गई है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 18.07.2018 से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी। कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देना चाहिए।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

हस्ता./
डी.के.सिंह
शासकीय समापक
माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबद्ध
8वां फ्लोर लोक नायक भवन
खान मार्किट नई दिल्ली
फोन न. 011 246933393, फैक्स न. 246933314
[विज्ञापन ए-II/II/10/17]

**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(COMPANY JURISDICTION)**

—
IN
COMPANY PETITION NO. 222/2015
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956
AND
IN THE MATTER OF:-

TAWAKKAL WOOD PRODUCTS PVT. LTD.

... PETITIONER

VERSUS

SURYANSH ALLOYS AND STEELS PVT. LTD..

... RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433 and 434 of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court at New Delhi on 17.04.2015 was presented to the

Hon'ble High Court by Tawakkal Wood Products Pvt. Ltd., Village Aghai, Taluka Shahpur, Thane - 421301, creditor of the Respondent Company.

The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 21.09.2017 passed in C.P. No. 222/2015 appointed the Official liquidator as the provisional liquidator of the company and directed the Official Liquidator to publish the advertisement of petition. The next date of hearing in the said petition is fixed for 18.07.2018 at 10:30 AM.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 18.07.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undermentioned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court and a copy served on the undermentioned not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Date:
Place: New Delhi

D.K.SINGH
OFFICIAL LIQUIDATOR,
ATTACHED TO THE HON'BLE
HIGH COURT OF DELHI
8TH FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
PH. 01124693393 FAX : 24693314
[ADVT. A-II/II/10/17]

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 999/2016

कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में
पी. वी. आर. लिमिटेड

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

साउथ एशियन हास्पिटलीटी सर्विस प्रा० लिमिटेड
दूसरी मंजिल, 40/43,
सी. आर. पार्क.,
नई दिल्ली-110019.

...प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनीज अधिनियम की धारा 433 (e) तथा 433 (f) साथ में 434 अंतर्गत उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी की समाप्ति हेतु एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में दिनांक 23/11/2017 को पी. वी.आर. लिमिटेड, निवासी 61, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा प्रस्तुत की गयी थी तथा कथित याचिका तिथि 26/07/2018, 10:30 प्रातः को माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख सुनवाई हेतु निर्देशित है।

उक्त याचिका पर आदेश करने का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक कोई भी ऋणदाता, अंशदाता अथवा कोई अन्य व्यक्ति उनके नाम तथा पते के साथ स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास इस तरह से भेजे ताकि वह अधोहस्ताक्षरी के पास याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि अर्थात् 26/07/2018 से कम से कम 5 दिन पहले पहुंच जाए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस सुनवाई में उपस्थित हों। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त हेतु निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी ऋणदाता या अंशदाता को उपलब्ध कराई जाएगी।

याचिका के विरोध में उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई भी शपथपत्र न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए तथा उसकी एक प्रति सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 5 दिन पहले अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली

हस्ता./

(डी.के.सिंह)

शासकीय समापक

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबद्ध

8वां फ्लोर लोक नायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली

फोन नं . 011 24693393, 24693315, फैक्स न. 24693314

[विज्ञापन ए-II/II/05/18]

**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(COMPANY JURISDICTION)**

IN

COMPANY PETITION NO. 999/2016

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:-

PVR LIMITED

... PETITIONER

VERSUS

SOUTH ASIAN HOSPITALITY SERVICES PVT. LTD.

2ND, FLOOR, 40/43, CR PARK,

NEW DELHI-110019.

... RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition Under Section 433(e) & (f) read with section 434 of the Companies for the winding up of the above Respondent Company by Hon'ble High Court of Delhi on 23/11/2017 was presented by PVR Ltd. R/O. 61, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 and that the said petition is directed to be heard before the Court on 26/07/2018 at 10.30 A.M.

Any Creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the under mentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the under mentioned not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition i.e. 26/07/2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the undersigned not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd/-

D.K. SINGH

**OFFICIAL LIQUIDATOR,
ATTACHED TO THE HON'BLE
HIGH COURT OF DELHI**

**8TH FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
[ADVT. A-II/II/05/18]**

Date:

Place: New Delhi